



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 368] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 1976/कार्तिक 21, 1898  
No. 368] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 1976/KARTIKA 21, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

### NOTIFICATION

#### CUSTOMS

*New Delhi, the 12th November 1976*

**G.S.R. 876(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976, (66 of 1976), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts component parts and cases of braille watches, solely imported for the manufacture of braille watches, falling within Chapter 91 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from—

- (i) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of—
  - (a) 7½ per cent *ad valorem*, if the article is the manufacture of the United Kingdom; and
  - (b) 10 per cent *ad valorem*, in all other cases, and
- (ii) the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 32 of the said Finance Act:

Provided that the importer, by the execution of a bond in such form and in such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand in respect of such parts as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for

the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such parts but for the exemption contained and that already paid at the time of importation.

[No. 435/F. No. 355/128/76-Cus. I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.

### राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1976

**सांकां० नि० 876 (अ).—**केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962<sup>1</sup> (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 91 के अन्तर्गत सम्मिलित ब्रेल घड़ियों के संघटक पुर्जों और केसों को, जहाँ उनका आयात पूर्णरूप से ब्रेल घड़ियों के विनिर्माण हेतु किया जाए,—

(i) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतन भाग से जो—

(क) वस्तु के यूनाइटेड किंगडम का विनिर्माण होने की दशा में, मूल्य के  $7\frac{1}{2}$  प्रतिशत से, और

(ख) अन्य सभी दशाओं में, मूल्य के 10 प्रतिशत से, अधिक है, छूट देती है, तथा

(ii) वित्त अधिनियम, 1976, की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है:

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विहित प्ररूप में और राशि का बन्धपत्र निम्नादिित करके स्वयं इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह ऐसे पुर्जों की बाबत जिनकी बाबत सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं किया गया है कि वे पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए हैं, मांग किए जाने पर, उसनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उन पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात करदे समय पहले ही संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

[सं० 435/फा० सं० 355/128/76 सीमा शुल्क-I]

एम० जयरामन, अव्वर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976